



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 141 राँची, शुक्रवार

16 माघ, 1937 (श०)

5 फरवरी, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग ।

अधिसूचना

4 फरवरी 2016

संख्या-1/स्था/स्था० समिति०-02/2016/न०वि०-667--नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- IV में अंकित स्थान/विभाग में अगले आदेश तक पदस्थापित/ सम्पुष्ट किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम/ पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	प्रस्तावित पदस्थापन स्थान
I	II	III	IV
1	श्री उमेश्वर नाथ तिवारी, कार्यपालक अभियंता	अधिसूचना संख्या-4077 दिनांक -04.11.2015 के क्रमांक-9 द्वारा कार्यपालक अभियंता, राँची नगर निगम के पद पर पदस्थापित।	स्तम्भ-III में अंकित अधिसूचना को संशोधित करते हुए मुख्य अभियंता के तकनीकी सलाहकार, राँची नगर निगम के पद पर पदस्थापित।

2	श्री कमल कुमार सिंह, राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा	उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के ज्ञापांक-2173 दिनांक-15.07.2015 द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, चाईबासा नगर परिषद के पद पर अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रतिनियुक्त।	कार्यपालक पदाधिकारी, चाईबासा नगर परिषद के पद पर सम्पुष्ट।
3	श्री प्रेम कुमार महतो, सहायक अभियंता	अधिसूचना संख्या-4872 दिनांक-31.12.2015 के क्रमांक-14 द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, चाईबासा नगर परिषद के पद पर पदस्थापित।	स्तम्भ-III में अंकित अधिसूचना को संशोधित करते हुए कार्यपालक पदाधिकारी, दुमका नगर परिषद के पद पर पदस्थापित।
4	श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियंता	अधिसूचना संख्या-4872 दिनांक-31.12.2015 के क्रमांक-1 के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, दुमका नगर परिषद का अतिरिक्त प्रभार।	स्तम्भ-III में अंकित अधिसूचना को रद्द किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
राहुल कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 141—50।